

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2015—आषाढ़ 12, शक 1937

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2015

क्र. 32-18-2015-म-इकतीस-442.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा के संबंधित उपसंभाग के उपयंत्री में से एक उपयंत्री को, जिसे संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, उक्त सारणी के कालम क्रमशः (2) तथा (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले की जल उपभोक्ता संथा के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

सारणी

स. क्र. (1)	जिला (2)	जल उपभोक्ता संथा का नाम (3)
(1) जिला शिवपुरी		
1.	शिवपुरी	नावली
2.	शिवपुरी	सिरसोद
3.	शिवपुरी	सलैया
4.	शिवपुरी	सिल्लारपुर
5.	शिवपुरी	मनपुरा
6.	शिवपुरी	भौंती
7.	शिवपुरी	बड़ौरा

स. क्र. (1)	जिला (2)	जल उपभोक्ता संस्था का नाम (3)
(2) जिला विदिशा		
1.	विदिशा	बघरूँ
2.	विदिशा	खजूरीशमशाबाद
3.	विदिशा	पिपलधार
4.	विदिशा	रावन
5.	विदिशा	सेऊ
6.	विदिशा	सतपाड़ा
7.	विदिशा	ऐँचदा
8.	विदिशा	खडेर
9.	विदिशा	रायखेडी
10.	विदिशा	रेहटी

स. क्र. (1)	जिला (2)	जल उपभोक्ता संस्था का नाम (3)
(3) जिला छिन्दवाड़ा		
1.	छिन्दवाड़ा	झिलिमिली
2.	छिन्दवाड़ा	उमरिया ईसरा
3.	छिन्दवाड़ा	धमनिया
4.	छिन्दवाड़ा	बेलगांव
5.	छिन्दवाड़ा	शहपुरा
6.	छिन्दवाड़ा	उमेगांव
7.	छिन्दवाड़ा	चांद
8.	छिन्दवाड़ा	बांकानागनपुर
9.	छिन्दवाड़ा	सिरेगांव
10.	छिन्दवाड़ा	चौरई खास
11.	छिन्दवाड़ा	पालादोन
12.	छिन्दवाड़ा	राजलवाडी
13.	छिन्दवाड़ा	सिरस
14.	छिन्दवाड़ा	लोनीबर्वा
15.	छिन्दवाड़ा	पिपरिया खाती
16.	छिन्दवाड़ा	हरदुआ
17.	छिन्दवाड़ा	कुकरई
18.	छिन्दवाड़ा	सिमरिया
19.	छिन्दवाड़ा	बिलिन्दा (केदार खुर्द)

स. क्र. (1)	जिला (2)	जल उपभोक्ता संथा का नाम (3)
(4) जिला सिवनी		
1.	सिवनी	जोगीवाडा
2.	सिवनी	सिंगोडी
3.	सिवनी	बांधी
4.	सिवनी	चंदोरीकला
5.	सिवनी	जुझारपुर
6.	सिवनी	कोठिया
7.	सिवनी	बखारी
8.	सिवनी	जमुनिया
9.	सिवनी	जैतपुर
10.	सिवनी	किसनपुर
11.	सिवनी	लखनवाड़ा
12.	सिवनी	नरेला
13.	सिवनी	घोटी
14.	सिवनी	राहीबाडा
15.	सिवनी	गोरखपुर
16.	सिवनी	नारायणगंज
17.	सिवनी	बोरिया
18.	सिवनी	परासिया

स. क्र. (1)	जिला (2)	जल उपभोक्ता संथा का नाम (3)
(5) जिला डिण्डोरी		
1.	डिण्डोरी	करौंदी
2.	डिण्डोरी	रनगांव
3.	डिण्डोरी	बरोदा
4.	डिण्डोरी	कारीगढहरी
5.	डिण्डोरी	शहपुरा
6.	डिण्डोरी	गुरैया

स. क्र. (1)	जिला (2)	जल उपभोक्ता संथा का नाम (3)
(6) जिला छतरपुर		
1.	छतरपुर	देवीखेड़ा
2.	छतरपुर	धरमपुरा
3.	छतरपुर	बसंतपुरा

स. क्र. (1)	जिला (2)	जल उपभोक्ता संथा का नाम (3)
(7) जिला ग्वालियर		
1.	ग्वालियर	डबका
2.	ग्वालियर	बेरजा
3.	ग्वालियर	उदयपुरा
4.	ग्वालियर	बहॉगीकलां
5.	ग्वालियर	चंद्रपुरा
6.	ग्वालियर	चकसोनपुरा
7.	ग्वालियर	जखारा
8.	ग्वालियर	बिल्हेटी
9.	ग्वालियर	रूअर
10.	ग्वालियर	मेहगांव
11.	ग्वालियर	उर्वा
12.	ग्वालियर	कछौआ
13.	ग्वालियर	मकोड़ा

स. क्र. (1)	जिला (2)	जल उपभोक्ता संथा का नाम (3)
(8) जिला भिण्ड		
1.	भिण्ड	जियाजीपुर
2.	भिण्ड	पिपरसाना
3.	भिण्ड	डिरमन

No. 32-18-2015-म-XXXI-442.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon ki Bhagidari Adhinyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, appoints one of the Sub-Engineers of the concerned Sub-Division of the Water Users Association as specified in the column (3) of the table below nominated by the concerned Chief Engineer, as Competent Authority for the Water Users Association of the District as specified in column (2) and (3) respectively of the said table, namely:—

TABLE

S. No. (1)	District (2)	Name of Water Users Association (3)
(1) District Shivpuri		
1.	Shivpuri	Navli
2.	Shivpuri	Sirsod
3.	Shivpuri	Salaiya
4.	Shivpuri	Sillarpur
5.	Shivpuri	Manpura
6.	Shivpuri	Bhonti
7.	Shivpuri	Badora

S. No. (1)	District (2)	Name of Water Users Association (3)
---------------	-----------------	--

(2) District Vidisha

1.	Vidisha	Bagharu
2.	Vidisha	Khjuri Shamshabad
3.	Vidisha	Pipaldhar
4.	Vidisha	Ravan
5.	Vidisha	Seu
6.	Vidisha	Satpada
7.	Vidisha	Enchda
8.	Vidisha	Khader
9.	Vidisha	Raykhedi
10.	Vidisha	Rehti

S. No. (1)	District (2)	Name of Water Users Association (3)
---------------	-----------------	--

(3) District Chhindwara

1.	Chhindwara	Jhilimili
2.	Chhindwara	Umariya Esara
3.	Chhindwara	Dhamaniya
4.	Chhindwara	Belgaon
5.	Chhindwara	Shahpura
6.	Chhindwara	Umegaon
7.	Chhindwara	Chand
8.	Chhindwara	Bankanaganpur
9.	Chhindwara	Siregaon
10.	Chhindwara	Chourai Khas
11.	Chhindwara	Paladon
12.	Chhindwara	Rajalwadi
13.	Chhindwara	Siras
14.	Chhindwara	Loni barra
15.	Chhindwara	Pipariya Khati
16.	Chhindwara	Hardua
17.	Chhindwara	Kukrai
18.	Chhindwara	Simariya
19.	Chhindwara	Bilinda (Kedar Khurd)

S. No. (1)	District (2)	Name of Water Users Association (3)
---------------	-----------------	--

(4) District Seoni

1.	Seoni	Jogiwada
2.	Seoni	Singodi
3.	Seoni	Bandhi

(1)	(2)	(3)
4.	Seoni	Chandori Kala
5.	Seoni	Jujharpur
6.	Seoni	Kothhiya
7.	Seoni	Bakhari
8.	Seoni	Jamuniya
9.	Seoni	Jaitpur
10.	Seoni	Kisanpur
11.	Seoni	Lakhanwada
12.	Seoni	Narela
13.	Seoni	Ghoti
14.	Seoni	Rahibada
15.	Seoni	Gorakhpur
16.	Seoni	Narayan Ganj
17.	Seoni	Boriya
18.	Seoni	Parasiya

S. No. (1)	District (2)	Name of Water Users Association (3)
---------------	-----------------	--

(5) District Dindori

1.	Dindori	Karondi
2.	Dindori	Rangaon
3.	Dindori	Baroda
4.	Dindori	Karigadh hari
5.	Dindori	Shahpura
6.	Dindori	Guraiya

S. No. (1)	District (2)	Name of Water Users Association (3)
---------------	-----------------	--

(6) District Chhatarpur

1.	Chhatarpur	Devikheda
2.	Chhatarpur	Dharampura
3.	Chhatarpur	Basantpura

S. No. (1)	District (2)	Name of Water Users Association (3)
---------------	-----------------	--

(7) District Gwalior

1.	Gwalior	Dabka
2.	Gwalior	Berja
3.	Gwalior	Udaypura

(1)	(2)	(3)
4.	Gwalior	Bahangikalan
5.	Gwalior	Chandrapura
6.	Gwalior	Chaksonpura
7.	Gwalior	Jakhara
8.	Gwalior	Bilheti
9.	Gwalior	Ruar
10.	Gwalior	Mehgaon
11.	Gwalior	Urva
12.	Gwalior	Kachhaua
13.	Gwalior	Makoda

S. No. (1)	District (2)	Name of Water Users Association (3)
(8) District Bhind		
1.	Bhind	Jiyajipur
2.	Bhind	Piparsana
3.	Bhind	Dirman

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. कपूर, अपर सचिव.